

Name of work - Repair of Flood Damaged Road in  
Tuntori Rev. Se. Mungosi CEDR  
Shedule XLV Form No. 134. 2021-22.


Patoji DIVISION

Vidyapati Nagar SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No -  $\frac{1306}{FDR}$

प्रमाणित किया जाता है कि इस  
मापी पुस्त में Printed कुल 50  
(पचास) पन्ने हैं जो श्री पद्मसूदन  
शेखर सहायक कमिश्नर आर का  
वि. कार्यालय अवर परमंडल, किशनगढ़  
के नाम से निर्गत किया जाता है

  
26/10/21  
कार्यपालक अभियन्ता  
सामाजिक कार्य विभाग  
कार्य परमंडल ज्येष्ठ (समन्तीपुर)  
Maw  
26/10/21

Sch. XLV-Form No. 134

\_\_\_\_\_ DIVISION  
\_\_\_\_\_ SUB-DIVISION

**Measurement Book**

No. 1306  
FDR

Name of Officer Shri Chandra Bhushan  
Ishwar

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_



## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
[05] Fitting & Filling @ bamboo Chackri in Proper Position - - do - all comp. Job = 01 x 53m x 03m x 03m n.					= 477.00 sq. m
[06] Kanya Filled Empty cement Bags (Renewal in good condition) of 1.2 cu Capacity - - Filled with local Sand Stacking 0.40 x 1.53m x $\frac{1.40 + 0.40}{2}$ m x 0.90 m = 82.62 cu m Say → 29/5.180 m <sup>3</sup> No. of Bags = $\frac{29.5.180}{1.20}$ = 2429.817 Say 2429 No. Bags <del>@ ₹ 34.29 / Bag</del>					
[08] Providing, Laying, Spreading & Hand Packing, etc etc - do - all comp. Job					

Continuation

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
1.00	01	32.00	1.25	0.150	6.00
	01	4.00	1.00	0.150	0.60
	01	14.00	0.50	0.225	1.58
	02	44.00	0.50	0.225	9.90
	02	25.00	0.50	0.150	3.75
	01	6.00	0.50	0.150	0.45
	01	11.00	1.25	0.150	2.06
	01	4	1.25	0.300	1.50
	01	16.00	1.00	0.225	3.60
	01	10.00	1.00	0.150	1.50
	01	36.00	0.50	0.225	4.05
	01	16.00	0.50	0.150	1.20
	01	18.00	2.00	0.225	8.70
	01	9.00	2.50	0.150	3.38
	01	5.00	2.50	0.150	1.88
	01	6.00	2.00	0.225	2.70
	01	9.00	2.50	0.150	3.38
	01	6.00	2.00	0.150	1.80
	01	7.00	2.50	0.225	3.94
	01	8.00	2.00	0.150	1.80
	01	6.00	2.00	0.075	0.90
	01	9.00	2.00	0.150	2.70
	01	7.00	1.50	0.225	2.36
	01	6.00	2.00	0.150	1.80
	01	14.00	1.50	0.225	4.73
	01	4.00	2.00	0.150	1.20
	01	6.00	2.50	0.225	3.38

Continuation

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	2.00	X 6.00	X 1.50	X 0.300	= 5.40
	1.00	X 5.00	X 2.50	X 0.150	= 1.88
	1.00	X 4.00	X 3.00	X 0.225	= 2.70
	1.00	X 12.00	X 2.50	X 0.150	= 4.50
	1.00	X 8.00	X 2.00	X 0.225	= 3.60
	1.00	X 5.00	X 2.50	X 0.075	= 0.94
	1.00	X 9.00	X 1.50	X 0.150	= 2.03
					<u>7.01-103.05</u>
					04.7

Raw  
26-10-2021  
J.E

## Abstract of cost

[01/01] Flood Protection work in  
Road Shouldered for vertical  
Proof including Pile with  
Bambo -- do -- 56

vide Page no. [01/01] = 159m

@ ₹1898 = 72

₹301578 = 0

[02/02] Providing Bambo Runoff  
vide Page no. - 01

[02/02] = 153m

@ ₹1400/m

₹21378 = 0

Continuation

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
[ $\frac{03}{03}$ ] Cutting 60mm x 75mm dia Bamboo Sink depth Pile - do - - Job Vide - Page No - 01 Item No [ $\frac{03}{03}$ ] = 58M @ ₹5 = 75/M ₹34 = 81/M					₹309 = 75 ₹1845 = 00
[ $\frac{04}{04}$ ] Labour for fitting & filling bamboo runner. Vide - Page - 02 = 58M @ ₹5 = 75/M					₹304 = - ₹305 = 00
[ $\frac{05}{05}$ ] Fitting & filling bamboo checkbox in position with - - all - - Comp. Job Vide - P-02 Item No [ $\frac{05}{05}$ ] = 477.00 sqm @ ₹188 = 52/M <sup>2</sup>					₹415225 = 00 ₹89324 = 00
[ $\frac{06}{07}$ ] Layer Filled Empty Cement Bags of 1.2 cft capacity					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Vide - Page no - 2, Item No [07]					
= 2429 Bags					
@ ₹ 34 = 29 Bags					
					₹ 83290 = 00
[07] <del>Laying Filled Empty</del>					
<del>Cement Bags</del>					
Providing, Laying, Spreading					
& Hand Packing Brick Bats					
- - do - - all Comp. Job					
Vide - Page no - 27					
= 103.05 MB					
@ ₹ 896 = 72 / MB					
					₹ 195457 = 00
					₹ 693972 = 00
GST @ 12% →					₹ 83277 = 00
Labour cost @ 1% →					₹ 6940 = 00
S. fees →					₹ 11263 = 00
					₹ 795452 = 00
Ravi 26-10-2021 JE					
Chk. 15/10/21					

Continuation